

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2

संख्या- (०२५ / V-2 / 03 (एल०यू०सी०) 17 / 2018

देहरादून : दिनांक 1४ जुलाई, 2018

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून की महायोजना-2031 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति दिनांक 22.05.2018 का प्रकाशन सर्वाधिक प्रचारित दो समाचार पत्रों क्रमशः दैनिक हिन्दुस्तान एवं दैनिक अमर उजाला में दिनांक 27.05.2018 में प्रकाशित करायी गयी। निर्धारित अवधि में महायोजना में संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

2- उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास अधिनियम, 1986) (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा-12 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, महामहिम राज्यपाल देहरादून महायोजना-2031 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थल/ग्राम का नाम	भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	महायोजना में वर्तमान भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	ग्राम सनगांव, तहसील डोईवाला, परगना परवादून, जिला देहरादून।	332	0.164	कृषि	सामुदायिक सुविधायें (विश्वविद्यालय)
2.	-तदैव-	334क	0.125	कृषि	सामुदायिक सुविधायें
3.	-तदैव-	335	0.174	कृषि	सामुदायिक सुविधायें
4.	-तदैव-	337क	0.134	कृषि	सामुदायिक सुविधायें
5.	-तदैव-	338क	0.271	कृषि	सामुदायिक सुविधायें
6.	-तदैव-	339	0.223	कृषि	सामुदायिक सुविधायें
7.	-तदैव-	340	0.263	कृषि	सामुदायिक सुविधायें
8.	-तदैव-	341	0.053	कृषि	सामुदायिक सुविधायें
9.	-तदैव-	342	0.138	कृषि	सामुदायिक सुविधायें
10.	-तदैव-	344क	0.093	कृषि	सामुदायिक सुविधायें
11.	-तदैव-	346	0.190	कृषि	सामुदायिक सुविधायें
12.	-तदैव-	347	0.150	कृषि	सामुदायिक सुविधायें
13.	-तदैव-	350	1.478	कृषि	सामुदायिक सुविधायें
14.	-तदैव-	359क	0.064	कृषि	सामुदायिक सुविधायें
15.	-तदैव-	360क	0.117	कृषि	सामुदायिक सुविधायें
		कुल क्षेत्रफल	3.637 हेक्टेयर		

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या- 1029/V-2/03(एल0यू0सी0)17/2018-तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 के सम्बन्धित खण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा 10 प्रतियां शासन को एवं 5-5 प्रतियां नीचे अंकित क्रमांक-1 एवं 2 के अधिकारियों को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

संख्या- 1029/V-2/03(एल0यू0सी0)17/2018-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दूनघाटी क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना दिनांक 01.02.1989 एवं दिनांक 14.09.2006 के क्रम में प्रेषित।
- 2- सचिव, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 4- गार्ड बुक/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 5- श्री एच0वी0 थपलियाल, कार्यकारी निदेशक, द शिवालिक हिल्स, देहरादून।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।